

CLASS- 2
SUBJECT-2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER-10

TOPIC- वर्षा का रहस्य

WORKSHEET

सार:-

● बच्चों यह तो हम सब जानते हैं कि वर्षा बादलों से आती है। परंतु यह आपको नहीं पता होगा कि बादल कैसे बनते हैं। आज हमें इस कहानी में यह जानने को मिलेगा कि बादल कैसे बनते हैं?

□ एक दिन मोहित दोपहर के समय अपने स्कूल से घर लौट रहा था तभी चारों ओर अँधेरा छा गया। आसमान में काले- काले बादल छा गए और थोड़ी देर में बड़ी-बड़ी बूँदें पड़ने लगी। बारिश पड़ने की वजह से मोहित अपने घर की ओर तेजी से भाग रहा था परंतु घर पहुँचते-पहुँचते मोहित भीग गया।

□ मोहित के घर पहुँचते ही उसकी माँ ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा क्योंकि वह भीग गया था और अगर वह कपड़े नहीं बदलता तो उसे ठंड लग जाती। कपड़े बदलते हुए मोहित यह सोच रहा था कि आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है। कपड़े बदलने के बाद मोहित अपने पिताजी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि पिताजी आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है?

□ पिताजी ने मोहित को समझाते हुए कहा कि तालाबों नदियों और समुद्र में जो पानी होता है वह पानी सूरज की गर्मी से भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। फिर मोहित ने पिताजी से पूछा कि भाप बादल कैसे बनती है?

□ पिताजी ने मोहित को समझाया कि भाप हवा से हल्की होती है और इसी वजह से वह ऊपर उठती है ऊपर ठंड होती है और ठंड होने के कारण भाप फिर छोटी-छोटी बूँदों के रूप में पानी में बदल जाती है। बादल इन्हीं पानी की बूँदों का समूह होते हैं।

□ पिताजी मोहित को अपनी बात एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं जिसके लिए वह मोहित को रसोई घर में लेकर जाते हैं। मोहित के पिताजी ने केतली में पानी गर्म किया और थोड़ी ही देर में केतली के मुँह से भाप निकलने लगी। फिर पिताजी ने केतली के मुँह के पास एक थाली रखी और थोड़ी ही देर में भाप थाली पर लगने लगी। कुछ देर बाद थाली से पानी की छोटी-छोटी बूँदे टपकने लगी। इस प्रयोग के बाद मोहित ने खुश होकर अपने पिताजी से कहा कि अब उसे वर्षा का रहस्य समझ में आ गया।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) पाठशाला-
- (b) उत्सुक-
- (c) रहस्य-

Q2. किसने- किससे कहा:-

- (a) आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है?
- (b) आओ बेटा तुम्हें एक प्रयोग द्वारा समझाता हूँ।
- (c) भाप बादल कैसे बनती है?

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO.- 49

Q2. सोचें और बोलें:- (i) (ii) (iii)

PAGE NO. 49:-

Q3. सोचें और लिखें:- (i)(ii)(iii)(iv)

PAGE NO.50

भाषा मंथन:-

Q1. उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करें:-

Q2. समझे तथा दो- दो शब्द और लिखें:-

